



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 677] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 901(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा डाक विभाग (पोस्टमैन और मेलगार्ड) भर्ती नियम, 2010 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को डाक विभाग (पोस्टमैन और मेलगार्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 कहा जाएगा।
(2) इन्हें 20 दिसम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।
- डाक विभाग (पोस्टमैन और मेलगार्ड) भर्ती नियम, 2010 के प्रारंभिक भाग में शब्दों, ब्रैकटों और आंकड़ों “भारतीय डाक एवं तार (पोस्टमैन/मेल गार्ड/ हेड मेल गार्ड) भर्ती नियम, 1969” को शब्दों, ब्रैकटों और आंकड़ों “भारतीय डाक एवं तार (पोस्टमैन/मेल गार्ड) भर्ती नियम, 1989 से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन: डाक विभाग (पोस्टमैन और मेलगार्ड) भर्ती नियम भारतीय डाक एवं तार (पोस्टमैन/मेल गार्ड/हेड मेल गार्ड) भर्ती नियम, 1989 का अधिक्रमण करते हुए नए नियम बनाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन अनजाने में इसका उल्लेख भारतीय डाक और तार (पोस्टमैन/मेल गार्ड/हेड मेल गार्ड) भर्ती नियम, 1969 के रूप में ही कर दिया गया। अतएव इस गलती को सुधारने की आवश्यकता है तथा इसे 20 दिसम्बर, 2010 अर्थात् मूल नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुआ माना जाए। एतद्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से, कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

[फा. सं. 44-14/2009-एसपीबी-1]

राज कुमार, निदेशक (स्टाफ)

पाद टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 983 (अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 के तहत प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात सा.का.नि. 511(अ), दिनांक 26 जून, 2012 के तहत संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2014

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Posts (Postman and Mail Guard) Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. (1) These Rules may be called the Department of Posts (Postman and Mail Guard) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 20th December, 2010.

2. In the Department of Posts (Postman and Mail Guard) Recruitment Rules, 2010, in the opening portion for the words, brackets and figures “Indian Posts and Telegraphs (Postman/Mail Guard/ Head Mail Guard) Recruitment Rules 1969” the words, brackets and figures “Indian Posts and Telegraphs (Postman/Mail Guard) Recruitment Rules, 1989 shall be substituted.

Explanatory Memorandum: The Department of Posts (Postman/Mail Guard) Recruitment Rules was made with a view to bring a fresh rule in supersession of the Indian Posts and Telegraphs (Postman/Mail Guard/Head Mail Guard) Recruitment Rules, 1989 but, inadvertently, the same was mentioned as Indian Posts and Telegraphs (Postman/Mail Guard/Head Mail Guard), Recruitment Rules, 1969. Therefore, the said mistake needs to be corrected and should be brought effective with effect from the 20th December, 2010 i.e. the date on which the principal rules was published in the Gazette. It is hereby decided that by giving retrospective effect to the rules no one will be adversely affected.

[F. No. 44-14/2009-SPB-I]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

Footnote: - The principal rules was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 983(E), dated the 20th December, 2010 and subsequently amended *vide* G.S.R. 511(E), dated the 28th June, 2012.